

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2019 - टियर- III (वर्णनात्मक पेपर) के  
मूल्यांकन हेतु  
अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए टियर II परीक्षा के परिणाम की  
घोषणा ।

\*\*\*\*\*

कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर में विभिन्न केंद्रों पर दिनांक 15.11.2020 से 18.11.2020 तक कंप्यूटर आधारित मोड में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर- II), 2019 और दिनांक 22.11.2020 को टियर- III (वर्णनात्मक पेपर) का आयोजन किया था ।

2. टियर- I और टियर- II परीक्षा में समग्र प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को उनके टियर- III (वर्णनात्मक पेपर) के मूल्यांकन हेतु श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने टियर-II में अर्हता प्राप्त नहीं की है, वे टियर- III (वर्णनात्मक पेपर) में मूल्यांकन किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे और उनके नाम पर आगे की चयन प्रक्रिया में विचार नहीं किया जाएगा। सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (ए ए ओ) (सूची-1), कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जे एस ओ) और सांख्यिकीय अन्वेषक- ग्रेड-II (सूची-2) और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (ए ए ओ), कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जे एस ओ) और सांख्यिकीय अन्वेषक- ग्रेड-II के पदों से इतर अन्य पदों (सूची-3) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं।

3. जैसा कि टियर- II (पेपर I और पेपर II) कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया गया है। अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग किया गया है। चूंकि, टियर II के पेपर III और पेपर IV एकल पाली में आयोजित किए गए थे, इसलिए पेपर III और पेपर IV के लिए कोई सामान्यीकरण नहीं किया गया है।

4. परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रावधान (पैरा 14.3) के अनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शार्ट लिस्ट किए जाने हेतु पात्र माना गया है, जिन्होंने टियर- II के प्रत्येक पेपर में निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं:

- (i) अना. : 30%,
- (ii) अपिव /आकव:25%
- (iii) अन्य: 20%

5. श्रेणीवार कट-ऑफ अंक और उनके टियर-III (वर्णनात्मक पेपर) के मूल्यांकन हेतु टियर-II में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कट-ऑफ अंक और उनकी संख्या निम्नानुसार है -

**सूची-1: सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (ए ए ओ) के पद के लिए टियर-III के मूल्यांकन हेतु टियर- II में अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थी :**

श्रेणी	कट-ऑफ मार्क्स (टियर 1) + टियर- II (पेपर- I + II + IV)	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अ.जा.	422.99783	364
अ.ज.जा.	377.74693	196
अ.पि.व.	456.79650	836
आ.क.व.	504.58172	339
अना.	517.46992	596 *
अ.दि.	449.20099	36
श्र. दि.	385.70577	31
अन्य- शा.दि.	306.93200	20
<b>कुल</b>		<b>2418</b>

\* ऊपर दर्शाए गए अना. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 669- अ.पि.व., 226- अ.जा., 91- अ.ज.जा., 269- आ.क.व., 16- अ.दि., 06-श्र.दि. और 02- अन्य शा.दि. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

**सूची -2:** कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जे एस ओ) और सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-।। के पद के लिए टियर-।। के मूल्यांकन हेतु टियर-।। में अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थी :

श्रेणी	कट-ऑफ मार्क्स (टियर 1) + टियर-।। (पेपर-। + ।। + ।।। )	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अ.जा.	359.87503	376
अ.ज.जा.	343.80764	188
अ.पि.व.	423.83991	605
आ.क.व.	457.41940	361
अना.	488.00000	307 *
अ.दि.	422.28761	10
श्र. दि.	302.89152	8
द.दि.	320.64089	29
अन्य- शा.दि.	375.17063	3
<b>कुल</b>		<b>1887</b>

\* ऊपर दर्शाए गए अना. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 405- अ.पि.व., 100- अ.जा., 30 अ.ज.जा., 253- आ.क.व., 03- अ.दि., और 03- द.दि. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

**सूची-3:** सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (ए ए ओ), कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जे एस ओ) और सांख्यिकीय अन्वेषक- ग्रेड-।। के पदों से इतर अन्य पदों के लिए टियर-।। के मूल्यांकन हेतु टियर-।। में अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थी :

श्रेणी	कट-ऑफ मार्क्स (टियर 1) + टियर-।। (पेपर-। + ।। )	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अ.जा.	434.68407	6864
अ.ज.जा.	405.12641	3493
अ.पि.व.	478.82303	14664
आ.क.व.	466.42205	6904
अना.	528.38462	8674 *

भू.पू.सै.	365.98601	1424
अ.दि.	392.96950	610
श्र. दि.	259.90917	538
दृ.दि.	422.76404	211
अन्य- शा.दि.	120.00000	149
<b>कुल</b>		<b>43531</b>

\* ऊपर दर्शाए गए अना. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 5931- अ.पि.व., 654- अ.जा., 157 अ.ज.जा., 2899- आ.क.व., 25-अ.दि., 16- दृ.दि. और 14-भू.पू.सै. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

नोट- I: तीनों सूचियों में सामान्य अभ्यर्थियों को छोड़कर, 43,896 अभ्यर्थियों को टियर-III (वर्णनात्मक पेपर) के मूल्यांकन हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है।

6. टियर-II परीक्षा की उत्तर-कुंजियों के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और जहां भी आवश्यक समझा गया है, उत्तर-कुंजियां को संशोधित किया गया है। मूल्यांकन के लिए अंतिम उत्तर-कुंजियों का उपयोग किया गया है। अंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 28.02.2021 को एक महीने की अवधि के लिए अपलोड की जाएंगी।

7. टियर- II परीक्षा में अर्हक /अनर्हक अभ्यर्थियों के अंक, टियर-III (वर्णनात्मक पेपर) के परिणाम की घोषणा के बाद टियर- III परीक्षा के अंकों के साथ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

अवर सचिव (गो.-1/1)  
19.02.2021